

पाटली नदी

चर्चा में क्यों?

13 मार्च, 2025 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने [कोटा](#) में **पाटली नदी** के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया।

मुख्य बंदि

- **पाटली नदी के बारे में:**
 - पाटली नदी **37 किलोमीटर** लंबी नदी है, जो **मध्यप्रदेश के मंदसौर ज़िले** से उद्गमति होकर **नीमथुर की पहाड़ी** से निकलकर **रामगंजमंडी (राजस्थान)** में प्रवेश करती है, जहाँ इसका लगभग **12 किलोमीटर** का प्रवाह क्षेत्र है।
 - अंततः यह नदी **सुकेत की आहु नदी** में वलिय हो जाती है।
- **नदी का जीर्णोद्धार:**
 - 5 करोड़ की लागत से वलिपुत हो चुकी पाटली नदी को पुनर्जीवति किया जाएगा।
 - इस परियोजना के तहत नदी की तलछट में जमे **मलबे, काँच, पत्थर के टुकड़ों व अन्य अपशष्टि** पदार्थों को निकाला जाएगा।
 - इसकी **चौड़ाई लगभग 40 मीटर की जाएगी** और इसके **कनारों का सुदृढीकरण** किया जाएगा।
 - नदी के कनारों पर उपयुक्त स्थान का चयन कर घाटों का नर्माण कराया जाएगा तथा कुछ स्थानों पर जल भराव के लिये बेड का नर्माण भी कराया जाएगा।
- **महत्त्व:**
 - नदी का जीर्णोद्धार होने से **40 गाँवों की लगभग 7050 हेक्टेयर कृषिभूमि** को सचिाई सुवधि उपलब्ध होगी।
 - **प्राकृतिक जल प्रवाह** पुनः स्थापति होगा।
 - इससे **आस-पास के खेतों में जलभराव की समस्या** कम होगी
 - **भू-कटाव** और **मट्टी के कषरण** को नर्यंत्रति किया जा सकेगा।

कोटा के बारे में:

- **परचिय:**
 - प्रारम्भिक शासक **कोटिया भील** के नाम पर इसका नाम कोटा पड़ा।
 - इसे **राजस्थान का कानपुर, औद्योगिक नगरी एवं शिक्षा नगरी** के नाम से भी जाना जाता है।
 - यह शहर **चंबल नदी** के तट पर स्थति है।
 - **जवाहर सागर बांध (चंबल नदी)** और **हरशिचंद्र सागर (काली सधि नदी)** कोटा में ही स्थति हैं
 - जयपुर और जोधपुर के बाद यह राजस्थान का **तीसरा बड़ा शहर** है।
- **साक्षरता**
 - 2011 की जनगणना के अनुसार यह राजस्थान का **सर्वाधिक साक्षरता (76.6%)** वाला ज़िला है।
- **प्रमुख दर्शनीय स्थल**
 - **मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ**- कोटा व झालावाड़ के बीच स्थति।
 - **वभीषण मंदिर** - भारत का **एकमात्र वभीषण मंदिर**, कैथून में स्थति।
 - **मथुराधीश मंदिर** - **वैषणव संप्रदाय** का प्रमुख तीर्थ स्थल।
 - **कंसुआ का शवि मंदिर**- 8वीं शताब्दी में नर्मित, यहाँ सूर्य की पहली करिण सीधे शविलगि पर पड़ती है।
 - **गेपरनाथ शविलय**- एक गुप्तकालीन शविलय है।
 - **सर्प उद्यान**- राजस्थान का **एकमात्र सर्प उद्यान** है।

